



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2009]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 2011/आश्विन 27, 1933

No. 2009]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2011/ASVINA 27, 1933

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2011

का.अ. 2414(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलेक्टर, गुड़गांव, हरियाणा को लिखित में किया जाएगा और जिसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

तालुका का नाम : सोहना

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	19//4	0.3425
		19//5	0.0389
		19//7	0.2327
		19//8	0.1611
		19//14	0.0213
		8//6	0.1574
		8//15	0.3353
		8//16	0.3750
		8//17	0.0901
		8//24	0.2832
		8//25	0.2129
		9//1	0.4046
		9//2	0.1787
		9//9	0.0065
		9//10	0.3461

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	9//11	0.1638	2.	सोहना	289//1	0.0422
		9//20	0.0158			289//2	0.0631
		6//6	0.3964			289//6	0.0174
		6//7	0.2021			289//7	0.1566
		6//8	0.1613			289//10	0.0428
		6//9	0.0012			289//15	0.1846
		6//11	0.0002			288//11	0.0608
		6//13	0.2798			288//19	0.0616
		6//14	0.3878			288//20	0.1022
		6//15	0.1677			288//22	0.0130
		6//17	0.0779			288//23	0.0210
		6//18	0.3704			295//2	0.0333
		6//19	0.2567			295//7	0.0477
		6//21	0.1310			295//8	0.2367
		6//22	0.3908			295//13	0.0188
		6//23	0.0820			295//14	0.3173
		5//9	0.0205			295//15/1/1	0.0249
		5//10	0.3273			295//15/2	0.0452
		5//11	0.0044			295//16	0.3255
2.	सोहना	291//2	0.0404			295//17	0.0556
		291//3	0.0488			295//25	0.0522
		291//6/1	0.0629			R-382	0.0049
		291//6/2	0.0259			296//20/1	0.0112
		291//7	0.2237			296//20/2	0.0607
		291//8	0.1218			296//21/1	0.0981
		291//9	0.0795			296//21/2	0.1717
		291//13	0.0919			296//22	0.2905
		R-392	0.0845			296//23	0.1743
		290//1	0.1173			296//24	0.0400
		290//2	0.1651			297//2	0.0599
		290//3/1	0.0475			297//3	0.2081
		290//3/2	0.1321	3.	लाखुवास	62//13	0.0262
		290//4/1	0.0274			62//14	0.0336
		290//4/2	0.1246			62//15	0.1481
		290//5	0.0610			62//16	0.0358
		290//6	0.0067			63//11	0.1850
		290//10	0.0076			63//12/2	0.2159
		282//23/1	0.0096			63//13	0.0465
		282//22	0.0069			63//16	0.0578
		282//23/2	0.0127			63//17/1	0.0465
		282//24/1	0.0049			63//17/2	0.0318
		282//24/2	0.0012			63//18	0.0990

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
5.	भिरावटी	1//15	0.0083			5//6	0.1668
		2//11	0.0179			5//7	0.1750
6.	सिलानी	10//16	0.1309			5//8	0.1832
		10//17	0.2247			5//9	0.1915
		10//22	0.2707			5//10	0.1994
		10//23	0.3212			4//2/1	0.1058
		10//24	0.0915			4//2/2	0.0685
		10//25	0.0488			4//2/3	0.0913
		9//14/1	0.0943			4//3/1/1/2	0.1714
		9//15/1	0.0877			4//3/1/2	0.0455
		9//15/2	0.0496			4//3/2	0.1114
		9//15/3	0.0389			4//4	0.0535
		9//17	0.2734			4//5	0.0624
		9//18	0.3255			4//7	0.0537
		9//19	0.3537			4//8	0.0893
		9//20	0.3196			4//9/1	0.0541
		9//21	0.0089			4//9/2	0.0165
	B	0.0966				4//9/2/1	0.0318
	R-A	0.0697				4//9/2/2	0.0182
	Johard 94	0.8618				4//10/2	0.1746
	8//13	0.0148		7.	करनकी	67//1	0.0349
	8//14	0.1313				67//2	0.0598
	8//15	0.2427				67//3	0.1111
	8//16	0.0272				67//4	0.1109
	8//17	0.0698				67//5/1	0.0053
	8//18	0.0680				R-79	0.2840
	R-102	0.0189				67//5/2	0.0960
	6//6	0.1765				66//23/2	0.0118
	6//8	0.1412				65//24	0.0620
	6//9	0.0790				65//25	0.1699
	6//10	0.0445				68//1/1	0.0952
	6//11	0.1962				68//1/2	0.0004
	6//12	0.1536				68//2	0.1364
	6//13	0.0239				68//3	0.0940
	6//14	0.1702				68//4	0.0516
	6//15	0.0257				68//5	0.0109
	7//11	0.1921				64//21	0.2446
	7//12	0.1574				64//22	0.2729
	7//13	0.1634				64//23	0.2717
	7//14	0.1695				64//24	0.1984
	7//15	0.2161				64//25	0.1246
	7//20	0.0004				63//16/1	0.1146
						63//16/2	0.0069

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
7.	करनौकी	63//17	0.2322	8.	खुन्टपुरी	11//2/1	0.0054
		63//18	0.2836			5//16/1	0.0523
		63//19	0.2345			5//16/2	0.0304
		63//20	0.1196			5//17	0.0720
		63//21	0.0507			5//18	0.0608
		63//22	0.0013			5//19	0.0478
		R-81	0.0045			5//20	0.0261
		62//12	0.0895			4//16	0.0684
		62//13	0.1976			4//17/1	0.0631
		62//14/1	0.1776			4//17/2	0.0495
		62//14/2	0.0408			4//18	0.0449
		62//15	0.2336			4//19	0.0963
		62//18	0.0238			4//20	0.0933
		62//19	0.0664			4//21/1	0.2948
		62//20	0.1090			4//23/1	0.0827
		61//11	0.1247			4//23/2	0.1502
		58//2	0.0178			4//25	0.0079
		58//3	0.0462			R-40	0.0218
		58//4	0.0426	9.	रतौकानाबाद (बरखेडा)	6//24	0.2437
8.	खुन्टपुरी	8//25/1	0.0315			6//25	0.1572
		8//25/2	0.0414			5//21/1	0.1679
		9//4/1	0.0600			5//22/1	0.0880
		9//4/2	0.1917			5//22/2	0.0906
		9//5/1	0.1425			5//23	0.1892
		9//5/2	0.0725			5//24	0.1998
		Johard-36	0.1710			5//25	0.2105
		Johard-37	0.0269			4//16	0.0812
		7//22	0.1171			4//17	0.0632
		7//23/1	0.1347			4//18	0.0415
		7//23/2	0.0157			4//19	0.0197
		7//24/1	0.0159			4//20	0.0018
		7//24/2	0.2188			4//21	0.2193
		10//3/1	0.2404			4//22	0.2121
		10//3/2	0.0155			4//23	0.1913
		10//4/1/2	0.1046			4//24	0.1584
		10//4/1/1	0.0151			4//25	0.1185
		10//4/2	0.0222			3//19	0.1971
		10//5	0.0427			3//20	0.1067
		6//16	0.0002			3//21	0.0926
		6//23	0.0081			3//22	0.0598
		6//24	0.0188			3//23	0.0225
		6//25	0.0239				
		11//1	0.0223				

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/4-वेस्टर्न कॉरीडोर]

जगदीप राय, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2011

S.O. 2414(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Gurgaon in the State of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, District Revenue Officer and Land Acquisition Collector, Gurgaon, Haryana in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objection and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure for the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Haryana.

Name of District : Gurgaon

Name of Taluk : Sohna

Sr. No.	Name of Village	Khasra Number/ Plot Number	Acqu. Area in (Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Raipur	19//4	0.3425
		19//5	0.0389
		19//7	0.2327
		19//8	0.1611
		19//14	0.0213
		8//6	0.1574

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Raipur	8//15	0.3353
		8//16	0.3750
		8//17	0.0901
		8//24	0.2832
		8//25	0.2129
		9//1	0.4046
		9//2	0.1787
		9//9	0.0065
		9//10	0.3461
		9//11	0.1638
		9//20	0.0158
		6//6	0.3964
		6//7	0.2021
		6//8	0.1613
		6//9	0.0012
		6//11	0.0002
		6//13	0.2798
		6//14	0.3878
		6//15	0.1677
		6//17	0.0779
		6//18	0.3704
		6//19	0.2567
		6//21	0.1310
		6//22	0.3908
		6//23	0.0820
		5//9	0.0205
		5//10	0.3273
		5//11	0.0044
2.	Sohna	291//2	0.0404
		291//3	0.0488
		291//6/1	0.0629
		291//6/2	0.0259
		291//7	0.2237
		291//8	0.1218
		291//9	0.0795
		291//13	0.0919
		R-392	0.0845
		290//1	0.1173
		290//2	0.1651
		290//3/1	0.0475
		290//3/2	0.1321

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Sohna	290//4/1	0.0274	3.	Lakhuwas	62//13	0.0262
		290//4/2	0.1246			62//14	0.0336
		290//5	0.0610			62//15	0.1481
		290//6	0.0067			62//16	0.0358
		290//10	0.0076			63//11	0.1850
		282//23/1	0.0096			63//12/2	0.2159
		282//22	0.0069			63//13	0.0465
		282//23/2	0.0127			63//16	0.0578
		282//24/1	0.0049			63//17/1	0.0465
		282//24/2	0.0012			63//17/2	0.0318
		289//1	0.0422			63//18	0.0990
		289//2	0.0631			63//19	0.1197
		289//6	0.0174			63//20	0.1400
		289//7	0.1566			64//11/3	0.1450
		289//10	0.0428			64//16	0.0369
		289//15	0.1846			64//17	0.0200
		288//11	0.0608			64//18	0.0031
		288//19	0.0616			64//20	0.0248
		288//20	0.1022			65//11	0.1231
		288//22	0.0130			65//12	0.0186
		288//23	0.0210			65//13	0.0031
		295//2	0.0333			65//18	0.0083
		295//7	0.0477			65//19	0.0589
		295//8	0.2367			65//20/1	0.0295
		295//13	0.0188			65//20/2	0.0202
		295//14	0.3173			65//20/3	0.0791
		295//15/1/1	0.0249			65//20/4	0.0845
		295//15/2	0.0452	4.	Sancholi	55//4	0.0276
		295//16	0.3255			55//3	0.0230
		295//17	0.0556			55//2/2	0.0097
		295//25	0.0522			55//2/1	0.1151
		R-382	0.0049			55//1	0.1941
		296//20/1	0.0112			54//3/1	0.2157
		296//20/2	0.0607			54//3/2	0.0957
		296//21/1	0.0981			54//4	0.0077
		296//21/2	0.1717			54//5/1	0.1048
		296//22	0.2905			54//5/2	0.0650
		296//23	0.1743			54//5/3	0.0939
		296//24	0.0400			54//8	0.0075
		297//2	0.0599			54//9/1	0.0631
		297//3	0.2081			54//9/2	0.0038

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
	Sancholi	54//10	0.0337		Sancholi	49//23	0.2114
		53//6/1	0.0640			49//24	0.1937
		53//6/2	0.1236			49//25/1	0.0490
		53//7	0.0181			49//25/2	0.0969
		5-G	0.0269			48//17/2	0.0103
		53//4	0.0192			48//23	0.0391
		27	0.0356			48//24	0.1226
		53//8	0.0006			48//25	0.1716
		53//9/1	0.0092			62//3	0.1328
		53//9/2	0.3082			62//4	0.0942
		53//10/1	0.2090			62//5	0.0420
		53//10/2	0.0819			61//1	0.0022
		53//11/1	0.0124	5.	Bhirawati	1//15	0.0083
		53//11/2	0.0141			2//11	0.0179
		52//11	0.0966	6.	Karanki	67//1	0.0349
		52//12	0.0774			67//2	0.0598
		52//13	0.0698			67//3	0.1111
		52//14	0.0622			67//4	0.1109
		52//15/1	0.0281			67//5/1	0.0053
		52//15/2	0.0517			R-79	0.2840
		51//14	0.0016			67//5/2	0.0960
		51//15	0.1050			66//23/2	0.0118
		51//16	0.0115			65//24	0.0620
		51//17	0.0699			65//25	0.1699
		51//18	0.1125			68//1/1	0.0952
		51//19	0.1223			68//1/2	0.0004
		51//20	0.1299			68//2	0.1364
		50//16	0.1375			68//3	0.0940
		50//17	0.1451			68//4	0.0516
		50//18	0.1513			68//5	0.0109
		50//19	0.1120			64//21	0.2446
		50//20	0.0173			64//22	0.2729
		50//21	0.0925			64//23	0.2717
		50//22	0.0391			64//24	0.1984
		50//23	0.0014			64//25	0.1246
		49//16/1/2	0.0942			63//16/1	0.1146
		49//16/2	0.1988			63//16/2	0.0069
		49//17/2	0.0900			63//17	0.2322
		49//17/1	0.1565			63//18	0.2836
		49//21	0.2038			63//19	0.2345
		49//22	0.1984			63//20	0.1196

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
	Karanki	63//21	0.0507		Silani	6//8	0.1412
		63//22	0.0013			6//9	0.0790
		R-81	0.0045			6//10	0.0445
		62//12	0.0895			6//11	0.1962
		62//13	0.1976			6//12	0.1536
		62//14/1	0.1776			6//13	0.0239
		62//14/2	0.0408			6//14	0.1702
		62//15	0.2336			6//15	0.0257
		62//18	0.0238			7//11	0.1921
		62//19	0.0664			7//12	0.1574
		62//20	0.1090			7//13	0.1634
		61//11	0.1247			7//14	0.1695
		58//2	0.0178			7//15	0.2161
		58//3	0.0462			7//20	0.0004
		58//4	0.0426			5//6	0.1668
7.	Silani	10//16	0.1309			5//7	0.1750
		10//17	0.2247			5//8	0.1832
		10//22	0.2707			5//9	0.1915
		10//23	0.3212			5//10	0.1994
		10//24	0.0915			4//2/1	0.1058
		10//25	0.0488			4//2/2	0.0685
		9//14/1	0.0943			4//2/3	0.0913
		9//15/1	0.0877			4//3/1/1/2	0.1714
		9//15/2	0.0496			4//3/1/2	0.0455
		9//15/3	0.0389			4//3/2	0.1114
		9//17	0.2734			4//4	0.0535
		9//18	0.3255			4//5	0.0624
		9//19	0.3537			4//7	0.0537
		9//20	0.3196			4//8	0.0893
		9//21	0.0089			4//9/4	0.0541
	B	0.0966				4//9/2	0.0165
	R-A	0.0697				4//9/2/1	0.0318
	Johard 94	0.8618				4//9/2/2	0.0182
	8//13	0.0148				4//10/2	0.1746
	8//14	0.1313		8.	Kuntपुरी	8//25/1	0.0315
	8//15	0.2427				8//25/2	0.0414
	8//16	0.0272				9//4/1	0.0600
	8//17	0.0698				9//4/2	0.1917
	8//18	0.0680				9//5/1	0.1425
	R-102	0.0189				9//5/2	0.0725
	6//6	0.1765				Johard-36	0.1710

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
	Kuntपुर	Johard-37	0.0269		Kuntपुर	4/20	0.0933
		7/22	0.1171			4/21/1	0.2948
		7/23/1	0.1347			4/23/1	0.0827
		7/23/2	0.0157			4/23/2	0.1502
		7/24/1	0.0159			4/25	0.0079
		7/24/2	0.2188			R-40	0.0218
		10/3/1	0.2404	9.	Barkhera	6/24	0.2437
		10/3/2	0.0155			6/25	0.1572
		10/4/1/2	0.1046			5/21/1	0.1679
		10/4/1/1	0.0151			5/22/1	0.0880
		10/4/2	0.0222			5/22/2	0.0906
		10/5	0.0427			5/23	0.1892
		6/16	0.0002			5/24	0.1998
		6/23	0.0081			5/25	0.2105
		6/24	0.0188			4/16	0.0812
		6/25	0.0239			4/17	0.0632
		11/1	0.0223			4/18	0.0415
		11/2/1	0.0054			4/19	0.0197
		5/16/1	0.0523			4/20	0.0018
		5/16/2	0.0304			4/21	0.2193
		5/17	0.0720			4/22	0.2121
		5/18	0.0608			4/23	0.1913
		5/19	0.0478			4/24	0.1584
		5/20	0.0261			4/25	0.1185
		4/16	0.0684			3/19	0.1971
		4/17/1	0.0631			3/20	0.1067
		4/17/2	0.0495			3/21	0.0926
		4/18	0.0449			3/22	0.0598
		4/19	0.0963			3/23	0.0225

[F. No. 2010/LML/12/4- Western Corridor]

JAGDIP RAI, Executive Director (Land and Amenities-1]